## SAI CAPITAL LIMITED

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1, SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI-110017 (CIN: L74110DL1995PLC069787), E mail: cs@saicapital.co.in, Ph.: 011-40234681

Website: www.saicapital.co.in

September 03, 2024

BSE Limited 1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001.

Scrip Code: 531931

Subject: Newspaper Announcement - 29th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/ Other Audio - Visual Means ("VC/OAVM") facility.

Dear Sirs,

Please find attached copies of announcements published on 3<sup>rd</sup> September, 2024 in the following Newspapers, both having electronic editions, intimating details regarding 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, 30<sup>th</sup> September, 2024 through VC/ OAVM facility:

- 1. English Daily "Financial Express" Delhi edition; and
- 2. Hindi Daily "Jansatta" Delhi edition.

The same shall also be uploaded on the Company's website in due course.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Sai Capital Limited

sual K SUL

Dr. Niraj Kumar Singh

Chairman and Managing Director

Encl: As above

**EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE LIMITED** CIN: L65923DL1984PLC019608

Regd Office: 3/14A, Vijaynagar Double Storey, Delhi-110009 Contact No. 9311480885, Website: www.efficientindustrial.in Email Id: efficientindustrial@gmail.com PUBLIC NOTICE

FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF EFFICIENT INDUSTRIAL FINANCE

LIMITED Pursuant to Ministry of Corporate Affairs' latest circular No.09/2023 dated 25.09.2023 read with 10/2022 dated 28.12.2022 read with SEBI's latest circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023, company was exempted from dispatching physical copies of Notices and Annual Report to shareholders and was also allowed conducting Annual General Meeting (AGM) through electronic mode till 30th September 2024. In view of the above. Efficient Industrial Finance Limited (the company) intends to convene its 40th Annual General Meeting on, Monday, 30th September 2024 at 01:00 P.M., through Audio visual means in compliance with the provisions of Companies Act and Rules and circulars issued there under and regulations and circulars issued by the SEBI under the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015.

The Notice of the AGM will be posted on the website of the Company () and also will be available a the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in).

We hereby request all our shareholders to update their Email IDs for receiving Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. Further, up-date their Bank details so as to enable electronic credit of dividends if declared by the Company from time to time without any delay and banking hassles.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice: -

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN) card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to efficientindustrial@gmail.com

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to efficient industrial@gmail.com

Shareholders holding shares in physical form are requested to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI

For Efficient Industrial Finance Limited Date: 3RD September, 2024

Place: New Delhi

**Compliance Officer cum Company Secretary** 

**DUROPACK LIMITED** 

## CIN: L74899DL1986PLC025835

Regd. Office: 3123, Sector-D, Pkt -Ill, Vasant Kunj, New Delhi -110070 Tel: 01126191861 Email: info@duropackindia.com Website: www.duropackindia.com Information regarding 36th Annual General Meeting and Record Date

The 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OVAM") on Saturday, September 28, 2024 at 10:00 a.m., in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and the Rules made thereunder ("Act") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements Regulations, 2015 ("listing regulations"), read with latest General Circular No. 09/2023 dated September, 25, 2023 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020, respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") has permitted the holding of Annual General Meeting through Video Conferencing("VC") or Other Audio-Visua Means ("OAVM"), without the physical presence of Members at a common venue. The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its latest circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167dated October 07, 2023 read with circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 read with Circular dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020 ("SEBI Circulars") and other applicable circulars (Collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC/ OAVM. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year 2023-24, along with Board's report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at https://duropackindia.com/annual-report and on the website of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at https://www.bseindia.com.

Manner of registering/updating email addresses:

(a)Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by writing to the Company at cs@duropackindia.com and info@duropackindia.com or to M/s Abhipra Capital Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rta@abhipra.com with details of folio number, Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card).

(b)In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID -CLID or 16 digit beneficiary ID), Name of Shareholder, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to cs@duropackindia.com and info@duropackindia.com or to M/s Abhipra Capital Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at rta@abhipra.com

Manner of casting vote(s) through e-voting:

(a) Member will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting").

(b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through electronic voting system The manner for attending AGM through VC/ OVAM and voting through e- voting system during the AGM, by the members holding shares in physical mode and by the members who have not registered their email addresses, will be provided in the

(c)The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the AGM

Book Closure/ Record Date for AGM thereof:

Name of the Branch/

**Borrower/Guarantor** 

Uttarakhand-248142

Date: 02.09.2024

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of listing regulations, the register of members and share transfe books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Saturday, September 28, 2024 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or during the AGM.

For and on behalf of Board of Directors of **Duro Pack Limite** 

Vivek Jair Managing Director DIN: 01753065

Place: New Delhi Date: 02" September, 2024 Indian Overseas Bank 💸

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED 3 CIN: L51311UP1998PLC206404

Regd. Off: C-504, Fifth Floor, ATS Bouquet, Sector-132, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201305 E-mail: info@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com NOTICE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 26, 2024 at 3:00 P.M. through Video Conference ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with General Circular No. 09: 2023, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated August 28, 2024.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Company has provided electronic voting facility for transacting all the business(es)

items as mentioned in Notice of 26th Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Monday, September 23, 2024 at 09:00 A.M. and will end on Wednesday, September 25, 2024 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-

off date i.e., September 20, 2024 only, shall be entitled to avail the facility of remote evoting/e-voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting. 1. Any person who has acquired shares and become members of the Company after

dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, M/s Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website www.sharikindia.com and CDSL's website www.cdslindia.com. The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the

Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange(s)

The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company i.e. www.sharikaindia.com. In case you have gueries or issues regarding attending AGM and e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact (022-23058738 / 022-23058542/ 43). In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. For Sharika Enterprises Limited

Noida, Uttar Pradesh Date: September 3, 2024

**Swati Tomar** 

Saumya Jaiswal Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office: G-25, GROUND FLOOR, RASVILAS SALCON D-1. SAKET DISTRICT CENTRE, SAKET, NEW DELHI, SOUTH DELHI -110017 (CIN: L74110DL1995PLC069787), E mail: cs@saicapital.co.in, Ph.: 011-40234681, Website: www.saicapital.co.in

### NOTICE OF 29<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING Dear Members.

 Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting ("29" AGM") of M/s. Sai Capital Limited ("the Company") will be held on Monday, 30th September, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility as per the provisions of the Companies Act. 2013 (the "Act") and the Rules framed thereunder, read with General Circular Nos. 20/2020, 10/2022 and 09/2023 dated 5" May, 2020, 28" December, 2022, 25" September, 2023, respectively and other Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The deemed venue for the 29" AGM shall be the Registered Office of the Company.

Electronic copy of the Notice of 29" AGM and the Annual Report for the financial year ended 31" March, 2024 will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) ("Depository"). The Notice of the 29" AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website (www.saicapital.co.in); BSE Limited (www.bseindia.com); and National Securities Depository Limited ("NSDL" (www.evoting@nsdl.co.in). Members can join and participate in the 29" AGM through VC/OAVM facility only. Detailed instructions for joining the 29" AGM and manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 29" AGM are provided in the Notice of 29th AGM. Members participating in the 29th AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members holding Shares in physical form who have not registered/ updated their email addresses with the Company may obtain Notice of the 29" AGM, Annual Report and/or login details for joining the 29" AGM through VC/OAVM facility including e-voting, or receiving any future communication by sending following documents via email at cs@saicapital.co.in.

 a) Duly filled and signed request letter in Form ISR-1, which is available on the website of the Company;

Self-attested scanned copy of the PAN Card linked with Aadhaar; and

c) Self-attested scanned copy of any document in support of the address (such as Aadhaar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) of the Member, or any such other document as prescribed in the Form ISR-1.

Members holding shares in Dematerialized form are requested to update their email address/ Electronic Bank Mandate with the Depository.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the Act, MCA Circulars and SEBI Circulars.

By Order of the Board Sai Capital Limited

DIN: 00233396

Indian Overseas Bank 🚳

Name of the Borrowers/Mortgagors/

**Guarantors with Address** 

1. Branch: Jwalapur Haridwar

Dr. Niraj Kumar Singh Dated: 02.09.2024 Chairman & Managing Director

Outstanding

Amount

Nagar, Dehradun, Uttarakhand-248001

Regional Office : 595, Malik Chowk, Indra

Date of

**Demand Notice** 

### POSSESSION NOTICE (For Immovable Property Rules 8 (1))

Place: New Delhi

Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice on mentioned in the notice calling upon the Borrower/ Guarantor/ Mortgagor /Through Their Legal heirs to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of said notice. The Borrower's/Legal heirs and other having failed to repay the amount, the notice is hereby given to the borrower/Through Their Legal heirs and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic possession** of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date mentioned are below. The borrower's/Legal heirs in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIAN OVERSEAS BANK. The borrower's/Legal Heirs attention is invited to provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured asset.

Description of the

Immovable Property

1.	Branch: Shivalik Nagar,	Equitable Mortgage By Deposit Of Title Deed	13.00.2024	Rs 20,20,021.00
	Haridwar (2901)  Borrower: Mrs. Sandhya  W/o Sh. Sanieev Mishra and	Of Property Situated At House On Plot No 15 Having Khasra No 316 Situated In Village Jamalpur Kalan Opposite Gayatri Mata Mandir	Date of Possession	contractual rates, expenses
	Ms. Priya Mishra D/o Sh. Sanjeev Mishra, <b>R/o:</b> House	Nr Chhoti Neher Pargana Jwalapur Tehsil And District Haridwar Uttarakhand. <b>Bounded And</b>	30.08.2024	and other charges etc from 30.08.2024
	on Plot No. 15, Having Khasra No. 316, Situated in Village Jamalpur Kalan, Opposite Gayatri Mata Mandir, Near Chhoti Neher, Pargana Jwalapur, Tehsil and District Haridwar, Uttarakhand.			
2.	Branch: Sarai, Haridwar (3212)	House on Part of Plot No. 16, Khasra No. 242, Village Jamalpur Kalan, Pargana Jwalapur	18.06.2024	Rs 10,64,279.80
	Borrower/Mortgagors: Mr. Ahsan S/o Mr. Sattar,	Haridwar, Uttarakhand-249404, Measuring 69.33 Sq.Mt. <b>Boundaries are as follow East:</b>	Date of Possession	as on 28.08.2024 together with further interest at contractual rates, expenses
	R/o: Village and Post Office Sarai, District Haridwar,	Drainage, <b>West:</b> Part of Plot No 16, <b>North:</b> Chak Road, <b>South:</b> Way 16 feet wide. In the	30.08.2024	and other charges etc

Name Mr. Ahsan S/o Mr. Sattar. l Uttarakhand-249404 Branch: Vikas Nagar, Rs 20.90.850.00 Residential property bearing Khatuni Khata 21.05.2024 No.166, Khasra No.263 Ka Min, Area 231.60 Dehradun (2502) as on 29.08.2024 together Borrower/Mortgagors : Sg. Mtr. or 2492.00 Sg. Ft., Situated at Mauza with further interest at **Date of Possession** Mohd. Naim Khan S/o Dharmawala, Pargana Pachwadoon, Tehsil contractual rates, expenses Shamshad Ali Khan, R/o-Vikas Nagar, District- Dehradun, Uttarakhand. and other charges etc Village Dharmawala, Post Boundaries as per sale deed/registry: 30.08.2024 Office Dharmawala, Vikas East-16 feet wide roadside (side measuring Nagar, Uttarakhand-248142 44feet), West- Land of Seller (side measuring 45feet), North- 12 feet wide passage (side (Hereinafter referred as measuring 56feet), South- Land of Seller side (measuring 56feet). Property in name of borrowers) All surviving Naim Khan & Shajiya Khan

legal heirs Late Mrs. Shajiya Khan W/o Mohd. Naim Khan,**R/o-** Village Dharmawala, Post Office Dharmawala, Vikas Nagar

**Authorized Officer, Indian Overseas Bank** 

UNIVERSAL CONVEYOR BELTINGS LIMITED

CIN-U29299DL1973PLC006646 Registered Office: Office No 24, 2nd Floor, B 28, Maurya Complex, Laxmi Nagar, Delhi-110092

NOTICE FOR 50" ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING (A) Annual General Meeting:

Notice is hereby given that the 50" Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Saturday, 28th September, 2024 at 12:30 P.M. to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM, The Company has on 2rd September, 2024 completed the dispatch of the Notice of the AGM

whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode/Demat mode as on 23" August, 2024 either by email to the email ids available with the Company/Registrar & Share Transfer Agents (RTA/Depository Participant(s), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. The Annual Report and other communications sent physically as well as electronically to the members whose Email ID available with RTA and shall also be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11:00 a.m. and 5:00 p.m. up to the date of the AGM.

Standards on General Meetings, the Company is providing remote e-voting facility for its shareholders to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM for all the resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of CDSL All the members are informed that:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, as amended, and Secretarial

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Friday, 20"

Date: 02-09-2024

September, 2024 Date of completion of sending Notice of AGM: 2" September, 2024.

Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e. 20th September, 2024 may obtain the login-id and password by sending an e-mail to briteindia@hotmail.com and evoting@cdsl.co.in by mentioning their Folio No./ DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and

password can be used for casting their vote. Date & time of commencement of Wednesday, 25" September, 2024, 9:00 remote e-voting A.M. (IST) Date & time of end of remote e-voting Friday, 27" September, 2024, 5:00 P.M. (IST)

The remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Friday, 27" September, 2024, 5:00 P.M. (IST).

The Notice of the Annual General Meeting is available on CDSL's website viz. https://www.odslindia.com/, However, as per Rule 18(3) (ix) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 publication of notice of AGM on company's website is not applicable as the company does not maintain a website. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM;

nowever those Members shall not be entitled to cast their vote through e-voting again during the n case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently

Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual www.evotingindia.com under help section or

write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Helpdesk; 1800 21 09911 or email to The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be published on the website of CDSL for

information of the Members.

The detailed instructions regarding the above will be provided in the Notice of the AGM and Shareholders are requested to take note of the same.

For and on behalf of the Board Universal Conveyor Beltings Limited Arun Kumar Mohata Managing Director DIN: 01038464



### (Formerly Known as ITCONS E-Solutions Private Limited) CIN: L72900DL2007PLC163427

Registered Office: Regus Elegance 2F, Elegance Jasola District Centre. Old Mathura Road, South Delhi, New Delhi-110025 IN Corporate Office: 3rd Floor, B-10. Baiaj Bhawan, Sector-3, JamnaLal Bajaj Marg, Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201301 IN

Tel.: +91-120-4149563 | Email: cs.pooja@itconsinc.com | Website: www.itconsinc.com NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of

ITCONS E-Solutions Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2024 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in Compliance with General Circular No 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 9/2023 by Ministry of Corporate affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P. 2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI Circular No SEBI/HO/CFD/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023.

In compliance to the above circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report for financial year 2023-24 has been sent on Monday, 02nd September, 2024 through electronic mode to all shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s) and the same is also available on the Company's website at www.itconsinc.com and on the website of the stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on NSDL website at www. evoting.nsdl.com. The Company is providing facility to the Members for exercising their right to vote on the items

of business set out in the Notice of AGM by remote e-voting as well as e-voting during the AGM system through platform provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The details pursuant to the Rules are given here under:

a) Date and time of commencement of remote e-voting: 24.09.2024 (9.00 a.m. IST), Date and time of end of remote e-voting: 26.09.2024 (5.00 p.m. IST).

The Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut- off date i.e. 21.09.2024, may cast their vote electronically.

d) The remote e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on

e) The Members would be able to cast their votes at the meeting through e-voting facility during AGM if they have not availed the remote e-voting facility. To cast e-vote during the AGM please refer the instruction mentioned in the AGM Notice. If the vote is cast through remote e-Voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the general meeting.

The Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the general meeting.

Any person who have acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 21st September, 2024 may obtain the login ID and password by following the steps as mentioned in the AGM Notice. Members attending the AGM through Video Conferencing /Other Audio-Visual Means shall be

counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Board of Directors have appointed Mrs. Snehal Kashyap, Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner

The result of remote e-voting and e-voting at the AGM shall be announced within 2 working days of the AGM of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of NSDL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange. pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR)

Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 22, 2024 to Friday, September 27, 2024 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. All queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you

may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or write an email to evoting@nsdl.co.in. For ITCONS E-Solutions Limited

Place: New Delhi

Gauray Mittal Date: 02nd September, 2024

**DEMAND** 

NOTICE

Notice Under Section-13(2) of The Securitisation And Reconstruction of Financial

Assets And Enforcement of Security Interest Act. 2002.

Whereas at the request of you (below mentioned borrowers or/and guarantors) Branch Coming Under Indian Overseas Bank Regiona

office: Dehradun, had granted Loan Facility against scheduled property, creating security Interest in favour of the bank. The particulars

of property mortgaged, by you by way deposit of title deeds creating security interest in favour of the bank are mentioned hereunder, As

you have failed to discharge the debut due to the bank, the below mentioned loan account has been classified as Non- Performing

Asset as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The said Notice dated 06.08.2024 has been sent to all the person

referred below by speed Post which may/may not have been delivered to one or more person referred below, we are publishing the

contents of said demand Notice as under for kind Information. Of persons Mentioned below and public at large. Through this

publication we call upon the attention of Borrower & the serving legal heirs of deceased Guarantor & Mortgagor. whose names have

been referred in publication and also who is not referred or know to the Bank, and informing them with the contents of the demand

notice dated. Whomsoever may, if they so desire, collect the copies of said demand notice from the undersigned on any working day

Managing Director

# intec Sapne Aapke, Bharosa Apno Ka

INTEC CAPITAL LIMITED CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019 T.: +91-11-4652200/300; F.: +91-1146522333

Website: www.inteccapital.com, Email ID: complianceofficer@inteccapital.com NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING AND

made thereunder, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Pursuant to General Circular

No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read

together with MCA General Circular Nos. 14 & 17/2020 dated 8th April, 2020 and 13th April,

REMOTE E-VOTING INFORMATION In compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and rules

2020 respectively and MCA General Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 ("MCA Circulars"), NOTICE is hereby given that the Thirtieth (30th) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Intec Capital Limited ('Company') will be held on Thursday, September 26, 2024 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), without the physical presence of the Members at the AGM, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 30th AGM ('AGM Notice'). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. In compliance with the Circulars, AGM Notice along with the Integrated Annual Report for FY 2023-24 ('Integrated Annual Report') has been sent only through electronic mode to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Transfer

Agent ('RTA')/Depository Participant ('DP'). The emailing of AGM Notice to all members has been completed on September 02, 2024. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.inteccapital.com websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at https://www.evotingindia.com/. Members whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the AGM Notice. Members, who have not registered their email IDs, are requested to register the same for

receiving all communications including Integrated Annual Report, Notices etc. from the Company electronically as per process mentioned below: 1) Members holding equity shares of the Company in demat form are requested. To

approach their respective DP and follow the process advised by DP. 2) Members holding equity shares of the Company in physical form may register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Forms with Company's RTA, Link

M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., at beetalrta@gmail.com Members may download the prescribed Forms from the Company's website at https://www.inteccapital.com/investors/investor-information/investo-rrequest-forms/. In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standards on General

Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), as amended, read with MCA Circulars, the Members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior the AGM) and e-Voting facility (during the AGM), on all the resolutions set forth in AGM Notice. The facility of casting votes will be provided by CDSL. Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible

to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. All the Members

a) The business as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting

The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the AGM on all the resolutions set forth in the AGM Notice. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the

Company after the Company sends the AGM Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 19, 2024, may obtain the User ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID for casting their vote. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-Voting then existing User ID and password can be used for casting the votes.

d) Remote e-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting | Monday, 23rd September 2024 (09:00 a.m. IST) Wednesday, 25th September, 2024 (05:00 p.m. IST) End of remote e-Voting The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the

it subsequently. During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the AGM.

The Members will be provided with the facility for e-Voting at the AGM and those

vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change

Members participating at the AGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the AGM, will be eligible to vote at the AGM. The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the

AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is provided in the AGM Notice and also available on the Company's website at www.inteccapital.com and on the

website of CDSLat www.evotingindia.com. Members may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring User id and password for e-Voting by providing documents as mentioned in the AGM

In case of any queries related to e-Voting, please refer the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800 22 55 33 or send a request to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL, ) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

The Board of Directors of the Company has appointed CS Priyank Kukreja, Practicing Company Secretary, as scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting and e-Voting at the AGM in a fair and transparent manner. The Results shall be declared within two working days of the conclusion of the AGM

who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company (www.inteccapital.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.) and shall be communicated to BSE Limited.

By the order of the Board For Intec Capital Limited

Place: New Delhi

Date: September 02, 2024

Regional Office: 595, Malik Chowk,

Indra Nagar, Dehradun, Uttarakhand-248001

(Sanjeev Goel) **Managing Director** DIN: 00028702

"FORM NO. INC-26"

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the

newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the Central Government Northern Region In the matter of sub-section (4) of Section 13

of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of Greenpay Network Private Limited having its registered office at RZ 2671/

28 4th Floor Tughlakabad Extension, New Delhi-Notice is hereby given to the general public that the Applicant Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the situation clause Il of its memorandum of association in terms of

the special resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on August 20, 2024 to enable the Applicant Company for shifting its registered office from the "State of NCT of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Applicant Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her/its objections supported by an affidavit stating the nature of his/her/its interest and grounds of opposition to the REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, B-2 WING, 2ND FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with copies to the Applicant Company at its current registered office address mentioned above and to the below mentioned communication address of the Applicant company:

GREENPAY NETWORK PRIVATE LIMITED CIN: U72900DL2020PTC364197 Regd. Office: RZ 2671/28 4th Floor Tughlakabad Extension, New Delhi-110019 E-Mail: akaash.kumar@greenpaynetwork.co.in For and on behalf of the Applicant Company GREENPAY NETWORK PRIVATE LIMITED

Communication Address:

ANIL KUMAR Managing Director DIN: 09094193

financialexp.epapr.in

Date - 02.09.2024

during normal office hours.

Place - Haridwar

13 of SARFAESI Act and other applicable provision of the said Act. This notice is without Prejudice of the Bank's right to Initiate such other actions or legal proceedings, as it deem necessary under any other provisions of law. The said Borrowers/ mortgagors/

provisions of the Act or Rules shall be liable for imprisonment and/or fine as given under Section 29 of the Act. **Authorized Officer, Indian Overseas Bank** 

New Delhi

**Description of Secured Assets** Particulars of securities Commercial Property located Borrower: 1. M/s Friends Traders Mohalla Lodha Mandi, Jwalapur Tehsil & District Haridwar (Proprietor Mr. Kiran Prakash), Office admeasuring an area of 80 square feet, in name of Anita Address: New Ansari Market, Verma W/o Kiran Prakash Verma Boundaries as per Gurudwara Road, Jwalapur, Haridwar- deed: East- Lane, West- House of Seller, North- Shop of Kherunisha & South- Shop 249407, **2**. Sh. Kiran Prakash Verma, Permanent Address: 534, Mohalla

& other charges 30.07.2024 Chaklan, New Dheerwali, Jwalapur, Haridwar-249407, Guarantor: 1. Late Mrs. Anita Verma (through It's Legal Heirs) Mr. Prince

**Total Dues** 

Rs. 7,34,532/-

as on 31.07.2024

Landmark Guhal Mandir, 2. Late Mrs. Anita Verma (through It's Legal Heirs), Mrs. Pooja Verma (daughter Of Anita Verma), Permanent Address: 534, Mohalla Chaklan New Dheerwali Jwalapur Haridwar-249407; Landmark Guhal Mandir.

Verma (son Of Mrs. Anita Verma) Permanent Address: 534, Mohalla Chaklan New Dheerwali Jwalapur Haridwar-249407

Date of

**Demand Notice** 

Date of NPA

06.08.2024

lf the aforementioned borrowers/guarantors/mortgagor or their legal heirs falls to repay the above mentioned amount due by you with future interest and Incidental expenses, costs as stated above in terms of this notice under section 13(2) of SARFAESI Act, within 60 days from the date of publication of this notice, the bank will exercise all or any of the rights detalled under Sub-section (4) of sanction

guarantors Legal heirs are prohibited under the SARFAESI Act from transferring the secured assets, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of Indian Overseas Bank. Any person who contravenes or abets contravention of the

> Place: Delhi Date: 03.09.2024

MEDICAMEN BIOTECH LIMITED Reg. Office: 1506, Chiranjiy Tower, 43, Nehru Place, New Delhi, 110019 CIN: L74899DL1993PLC056594 Contact No.: 011-47589500 Website: www.medicamen.com Email: cs@medicamen.com

NOTICE OF THE 31st ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) AND REMOTE E- VOTING Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Medicamer Biotech Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 26, 2024 at 12.00 Noor IST through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visuals Means ("OAVM") in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act, 2013) and rules framed thereunder read with General Circular No 20/2020 dated May 05, 2020 and 10/2020, 11/2020 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with other relevant circulars issued by MCA in this regard and Circular No SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/ 4 dated January 05; 2023 issued by SEBI read together with other relevant circulars issued by SEBI in this regard, and other applicable circulars, to transact the business(es) set out in the Notice

The notice of the 31st AGM along with the explanatory statement and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent electronically on September 02, 2024 to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's Registrar & Share Transfer Agent/ Depository Participants and whose names appears in the register of members as on the close of the business hours of August 31, 2024. Physical copies of the aforesaid documents are not being sent to the shareholders in accordance with the aforesaid MCA Circulars and other

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEB (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e voting electronically from a placeother than the venue of the AGM) and e-voting at the AGM and the same will be provided by Link In Time India Private Limited (\*LIIPL). All the members are hereby informed that

 The remote e-voting period shall commence at 09.00 a.m. IST on September 23, 2024 and end at 05.00 p.m. IST on September 25, 2024. The facility for remote e-voting shall be

Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date i.e. September 19, 2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

 Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after sending the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date i.e September 19, 2024, may obtain the login id and sequence number by sending a request to RTA of the Company 'Link Intime India Private Limited' at Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058. Ph: 011-49411000 email id: (e-voting insta.vote@linkintime.co.in) or Company Secretary for any query. However if the said shareholder is already registered with Link Intime India Private Limited for e-voting, then his existing user id and password can be used for casting the vote. If he has forgotte the password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://instavote.linkintime.co.in/

Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the close of the working hours of the aforesaid cut-off date and not casting their vote by way of remote e-voting, may caste their vote at AGM through e-voting system

A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to be changed subsequently or cast again.

Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently or cast again ) The Notice of AGM and the Annual report is available on the company's website www.medicamen.com, on the LIIPL's websitewww.linkintme.co.in and the website of the

stock exchange(s) viz; NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) The Directors have recommended a final dividend of Re. 1:00/- per equity share of Rs. 10/ each of the Company for approval by the shareholders at the AGM

Pursuant to regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, the Company has fixed Thursday, September 19, 2024 as the Record Date for determining entitlement of members to final dividend for the financial year ended March 31, 2024. If the final dividend as recommended by the Board of Directors is approved at the AGM, payment of such dividend will be made on or before October 25, 2024 as under:

To all beneficial owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as of the close of business hours on Thursday, September

(ii) To all members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Company as of the close of business. hours on Thursday, September 19, 2024.

Further, Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 real with relevant rules there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from September 20, 2024 to September 26, 2024 (both days inclusive).

For the purpose of receiving dividend, if declared at the AGM, Members who have furnished updated their bank account with their Depository Participant (DPs) in case shares are heli in physical form, shall be facilitated with electronic transfer of funds by the Company, in case of non-availability or non-updation of bank account details of the shareholders, the Company shall ensure payment of dividend to such member vide dispatch of dividend warrant/cheque.

For any queries, the members may refer to the frequently asked questions and Instavote E-voting manual available at https://www.instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at 011-49411000or to Ms. Parul Choudhary, Company Secretary, 1506, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019 at cs@medicamen.com or contact at 011-47589500

For Medicamen Biotech Limited

Place: New Delhi Date: September 02, 2024

Parul Choudhary

Company Secretary



टेलीफोन: 91-1792-230644; फैक्स नंबर: 91-1792-231902

37वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है किः

(ए) एचएफसीएल लिमिटेड ('कंपनी') की 37वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम की सुचना में उल्लिखित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

(बी) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 और 09/2023 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 और 25 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी क ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमित दी है और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीएलआर/पी/2020/79 दिनांक 1 मई 2, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023. ('परिपत्र'), अन्य बातों के साथ-साथ उन शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 में निर्धारित सभी दस्तावेजों की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण की हार्ड कॉपी भेजने से छूट देता है, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') और परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 37वीं एजीएम वीसी क ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और

(सी) कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से सदस्यों को 37वीं एजीएम में भाग लेने की सविधा प्रदान

(डी) परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट के साथ 37वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

(ई) कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 44 और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनसार, कंपनी अपने सदस्यों को 37वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया 37वीं एजीएम के नोटिस में दी जा रही है।

(एफ) दिनांक 03 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में, दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 17 नवंबर, 2023, 7 मई, 2024 और 10 जून, 2024 के परिपत्रों के साथ पठित, सेबी ने अनिवार्य किया है कि प्रतिभृति धारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पैन या संपर्क विवरण या मोबाइल नंबर या बैंक खाता विवरण या नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं किया है. तो ऐसे प्रतिभित धारकों को लाभांश राशि का भगतान केवल इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से

01 अप्रैल, 2024 से उपरोक्त सभी विवरण संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। (जी) समय पर लाभांश प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकत/अपडेट करें:

• यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे गए हैं. तो अपेक्षित दस्तावेज जमा करके अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ जिनके पास वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, और

● यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं, तो आरटीए के साथ फॉर्म आईएसआर-1 को विधिवत भरकर (i) हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम और पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण). (ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और (iii) कैंसिल्ड चेक लीफ शामिल होंगे।

(एच) शेयरधारक जो भौतिक मोड में शेयर रखते हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत| या अपडेट नहीं किया है, वे कृपया कंपनी के सचिवालयी विभाग को secretarial@hfcl.com पर या कंपनी के आरटीए admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल लिखकर संपर्क करके इसे पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क/पत्र लिख सकते हैं।

एचएफसीएल लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 2 सितंबर, 2024

(मनोज बैद) अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव

"IMPORTANT" Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

रिट्ज मर्केन्टाइल लिमिटेड पंजी. कार्या.: 1305, 13वां तल, देविका टावर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 CIN: L52110DL1985PLC019805

सदस्यों के लिये सुचना एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि वार्षिक आम सभा के आमंत्रण सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये रिट्ज मर्केन्टाइल लिमिटेड के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक आम सभा कम्पनी के पंजीकृत

कार्यालय में 4.00 बजे अप. में शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित की जाएगी। एतदद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, यथा-संशोधित के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें कम्पनी की उक्त एजीएम के लिये 21 सितम्बर, 2024 से 27 सितम्बर, 2024 (दोनों

सदस्यों को एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 46 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा अपने सदस्यों को मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये अलंकित एसाइन्मेन्ट्स लि., कम्पनी के आरटीए की एक एजेन्सी के रूप में सेवाऐं प्राप्त की हैं।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 24 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 26 सितम्बर, 2024 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद ई-वोटिंग

यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा शेयर अर्जित करते हैं तथा 20 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे info@alankit.com पर टोल फ्री नम्बर 1800-113300 पर अलंकित को कॉल कर ईमेल अनुरोध भेजकर यूजर नाम तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य पहले से ही अलंकित ई-वोटिंग में पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

एजीएम में पोल (बैलॅट) पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सभा में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे सभा में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन एजीएम में पुनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

ई-वोटिंग-संबंधी किसी भी पृछताछ के लिये कृपया सीडीएसएल की वेबसाईट link http://evotingindia.com पर उपलब्ध सहायता तथा एफएक्यू खंड देखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधी पूछताछ अथवा समस्या अधोलिखित को संबोधित की जा सकती है:

अलंकित एसाइन्मेन्ट लि., अलंकित हाइटस, १ई/१३, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-११००५५, फोन नं. 011-4254 1234, 2345 1234, ई-मेलः rta@alankit.com

> कृत्ते, रिट्ज मर्केन्टाइल लि. गर्वित सिंहवी

पूर्ण-कालिक निदेशक स्थानः नई दिल्ली तिथि: 3.9.2024 DIN: 00597757



एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली — 110092 निगमित कार्यालय : एसजी सेंटर, प्लॉट नं. 37—सी, ब्लॉक—बी, सेक्टर—132, नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश—201304, दूरभाष : 91—11—44457164 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L74899DL1986PLC023443 वेबसाइट : www.aplapollo.com, ईमेल : investors@aplapollo.com

> सदस्यों के लिये 39वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सचना

यह सूचना 29 अगस्त 2024 को दिये गये हमारे पूर्व के सूचनागत संचार की निरंतरता में है. जिसके द्वारा एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों को सूचित किया गया थ कि कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत विरचितत नियमावली तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियमावली'') जो कि कॉर्पोरेट मंत्रालय के परिपत्र क्रमशः सं. 20 / 2020 दिनांक 5 मई 2020 एवं परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022, 09/2023 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 13 जनवरी 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 तथा 25 सितंबर 2023 (एमसीए परिपत्र) तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 तथा परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 जो कि भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये (सेबी परिपत्रों) के साथ पठित है, के अनुपालन में. यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैटक ("एजीएम") बृहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 को मध्या. 11.00 बजे, वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') सुविधा के माध्यम से, किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 39वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिये बुलाई जायेगी। बैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लॉगिन विवरणों के साथ 39वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की एकीकत वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया, रविवार 1 सितंबर 2024 को पूर्ण हो गयी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ अथवा उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (''डीपी'') के साथ, उपरोक्त एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुसार, पंजीकृत हैं, तथा उपरोक्त सूचनायें कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com तथा www.nseindia.com) पर तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध हैं। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की भौतिक प्रति उस / उन सदस्य(यों) को उपलब्ध करायी जायेगी, जो इसके लिये

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस-2) और एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। रिमोट ई—वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 (प्रातःकाल 10.00 बजे) से आरंभ होगी और बुधवार,

25 सितंबर, 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट—ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, सीडीएसएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर

दिनाँक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश रु. 5.50 प्रति इक्विटी शेयर जिसका नाममात्र मूल्य रु. 2/- प्रत्येक है, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित है, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, तो आय कर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कर की कटौती के बाद एजीएम की तिथि से 30 दिनों के अंदर, उन सदस्यों के खाते में जमा किया जायेगा / भेजा जायेगा, जिनके नाम गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या उनके अधिदेशों में दिखाई देते हैं। सदस्यों द्वारा डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए डिपॉजिटरी से प्राप्त होने वाले 19 सितंबर, 2024 के अनुसार लाभकारी स्वामित्व के विवरणों के आधार पर, लाभांश जमा किये जायेंगे / प्रेषित किये जायेंगे। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

1. एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान के माध्यम से किए जाएंगे;

2. कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के

3. कोई भी व्यक्ति, जो 39" एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि के अनसार शेयर धारण करता है, वह 39वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सी.डी.एस. एल. के साथ पंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आई.डी. और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है; तथा 4. सदस्यगण ध्यान दें कि : क) रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल सी.डी.एस.एल. द्वारा मतदान के लिए

पूर्वोक्त तिथि और समय के पश्चात अक्षम कर दिया जाएगा तथा एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के पश्चात, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ए.जी. एम. में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगाः ग) इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी: तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही ए.जी.एम. में रिमोट ई-वोटिंग या मतदान की सविधा का प्राप्त करने का हकदार होगा।

यदि आपने कंपनी / डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो आप ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कपया नीचे दिए गए अनदेशों का पालन

कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे). पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति. आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रजेख जैसे आवश्यक विवरण कंपनी को ईमेल द्वारा : investors@aplapollo.com पर या आरटीए को rta@abhipra.com पर उपलब्ध करायें।

कृपया डीमैट खाते का विवरण (सीडीएसएल–16 अंकों का लाभार्थी आईडी या . एनएसडीएल–16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेि. कत खाता विवरण की प्रति, आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रलेख कंपनी को : investors@aplapollo.com पर या आरटीए को : rta@abhipra.com पर उपलब्ध करायें।

श्री जतिन गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : एफसीएस 5651 : सीओपी संख्या 5236) को कंपनी द्वारा एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। मतदान का परिणाम एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के अंदर अर्थात् 28 सितंबर, 2024 को या

इससे पहले घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित परिणामों को जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.aplapollo.com) पर और सीडीएसएल की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर प्रदर्शित किया जायेगा और साथ ही उन स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर सचनार्थ डाला जाएगा, जहां कंपनी के

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में विवरण दर्ज / अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर टांसफर एजेंट मैसर्स अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर -1 में उक्त विवरण दर्ज / अपडेट करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित फॉर्म एसएच-13 में अपना नामांकन पूरा करें। सदस्यगण संबंधित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://aplapollo.com/downloads से प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांक : 2 सितंबर 2024

स्थान : नोएडा

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड हेत तथा उसकी ओर से हस्ता./-दीपक कुमार पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन : 03056481 साई कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जी-25, ग्राउंड फ्लोर, रसविलास सालकॉन डी-1, साकेत जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली -110017 (सीआईएन : L74110DL1995PLC069787), ईमेलः cs@saicapital.co.in, फोन : 011-40234681, वेबसाइट : www.saicapital.co.in

## 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

1. सूचित किया जाता है कि मेसर्स साई कैपिटल लिमिटेड ("कंपनी") की उनतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("29वीं एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्अल साधन ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से (आईएसटी) 5 मई, 2020, 28 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर 2023 को क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 10/2022 और 09/2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी अन्य परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी – पीओडी 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक ७ अक्टूबर २०२३ के साथ पढ़े गए। २९वीं एजीएम के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

29वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केवल उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। 29वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.saicapital.co.in); बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com)य और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (www. evoting@nsdl.co.in) पर भी उपलब्ध होगी। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 29वीं एजीएम में शामिल होने और 29वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भाग लेने या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश 29वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 29वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ई-वोटिंग सहित 29वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और / या लॉगिन विवरण प्राप्त कर सकते हैं, या cs@saicapital.co.in पर ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज भेजकर भविष्य में कोई भी संचार प्राप्त कर

1) फॉर्म ISR-1 में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है;

2) आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति ; और 3) सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति (जैसे आधार) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट), या फॉर्म ISR-1 में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज।

4. डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता / इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अपडेट करें। उपर्युक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारों की जा रही है और यह अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेशानुसार साई कैपिटल लिमिटेड डॉ. नीरज कूमार सिंह

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनांक : 02.09.2024 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00233396

> एसजी फिनसर्व लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली--110092 कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L64990DL1994PLC057941

दूरमाष : 91-11-22373437 वेबसाइट : www.sgfinserve.com, ईमेल : compliance@sgfinserve.com

सदस्यों हेत् 30वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना यह हमारे 30 अगस्त 2024 को दिये गये पूर्व के सूचनागत संचार की निरंतरता में है, जिसके द्वारा एसर्ज फिनसर्व लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सुचित किया गया था कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत विरचित नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमावली 2015 ("संबी (एलओडीआर) विनियमावली ) के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") परिपन्न संख्या 20/2020 विनांक 5 मई, 2020 और परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020 02 / 2021, 02 / 2022, 10 / 2022, 09 / 2023 दिनांक क्रमश : 8 अमैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 13 जनवरी 2021, 5 मई, 2022, 28 विशंबर, 2022 और 25 शितंबर, 2023 (एमसीए परिपन्न) तथा भारतीय प्रतिभृति और

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / मी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, परिपत्र संख्य सेबी / एसओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021, परिपन्न संख्य सेबी / एचओ / सीएफर्टी / सीएमटी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 /4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और परिपन्न संख्य संबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी - पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अवद्वर 2023 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित, अनुपालन में, यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी की 30वीं वार्षिक आग बैठक ("एजीएम") मंगलवार 24 सितंबर 2024 को नध्या, 11,00 बजे, वीडियो कान्फ्रेंसिंग ("वीसी") सुविध के माध्यम से, किसी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना, 30वीं एजीएम की सूबना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने के लिये बुलायी जायेगी / आयोजित की जायेगी बैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

उन सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सहित वीसी सुविधा के मध्यम से एजीएम में उपस्थित होने हेतू लॉगिन विवरणों के साथ 30वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया, रविवार 1 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई है, जिनके ई-मेल पते. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अथवा रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट अथवा उनके संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत थे, तथा उपरोक्त सूचना व रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.sgfinserve.com) पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bscindia.com) पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') की देवसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध है। एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूथना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो इसके लिये अनुरोध करेंगे।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठक पर जारी सक्षिवीय मानक (एसएस-2) और एमसीए परिपजों वं साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सदस्यों को 30 वी एजीएम की सूचना मे निर्धारित सभी प्रस्तायाँ पर सीढीएसएल द्वारा तपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध

रिमोट ई-बोर्टिंग शनिवार, 21 सितंबर, 2024 (प्रात:काल 10.00 बजी) से आरंभ होगी और सोमवार, 23 सितंबर 2024 (सार्यकाल 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिबि') के अनुसार भौतिक रूप में या अमौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वंट वाल सकते हैं। इसके उपरांत, वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉळवूल को गिष्किय कर दिया जाएगा। समी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि

 एजीएम की सूत्रना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रोंनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किए आएगे,

2. जो व्यक्ति कट ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूधना को कंदल सूचना के उद्देश्य 3. कोई भी व्यक्ति, जो 30वीं एजीएम की सुधना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयर प्राप्त करत

है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार श्रेयर धारण करता है, वह 30वीं एजीएम की राजना में उल्लिखितानुसार अनुवेशों का पालन करके या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई--वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से फंजीकृत है, तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने विद्यमान कुजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है: तथा

 सदस्यगण कृपया ध्यान वें कि : क) वोटिंग के लिए निर्धारित उपर्युक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-बोर्टिंग मीक्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वीट ढाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना योट ढाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा; ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; और घ) कंवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, कंवल वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

यदि आपने कंपनी 🖊 डीपी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है. तो आप ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन कर सकते हैं :

और पीछे), पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति, आधार कार्ड की रव-सत्यापित रकेंन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रलेख जैसे आवश्यक विवरण हेमेल द्वारा कंपनी को : compliance@sgfinserve.com पर या आरटीए को compliances@strylinerta.com पर उपलब्ध कराये।

कृपया फोलियो नंबर, शेयरपारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने

कृपया डीमेट खाते का विवरण (सीडीएसएल-16 जंकों का लामार्थी आईडी या एनएसाडीएल-16 अंकों का शीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति. आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति या पते के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रलेख कंपनी को : compliance@sgfinserve.com पर या आरटीए को : compliances@strylinerta.com पर उपलब्ध कराये।

श्री जतिन गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या : एफसीएस 5651 : सीओपी संख्या 5236) क कंपनी द्वारा एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से संपूर्ण ई--वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जींचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी की

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। वोटिंग का परिणाम, एजीएम के समापन से 2 कार्य दिवसों के मीतर यानी 26 सितंबर, 2024 को या इसरे पहले घोषित किया जाएगा और इस तरह घोषित परिणाम, जीवकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट (www.sgfinserve.com) पर और सीढीएसएस की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर प्रदर्शित किये जायेंगे और साथ ही इन्हें स्टॉक एक्सचेज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bscindia.com. जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी संप्रेषित किया जायेगा।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने या ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रान या समस्य है, तो आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-वोटिंग मैनुअल को www.evotingindia.com पर उपलब्ध सहायता अनुभाग में देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फी नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वालें सदस्यों और जिन्होंने अपने ईमेल या केवाईसी को अपडेट नहीं किर्य हैं, जन सदस्यों से अनुरोध है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हारा सुझायी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने वीमैट खाते में विवरण पंजीकृत / अपडेट करें। भौतिक रूप में शेवर रखने वाले सदस्य जिन्होंने अपनी ईंग्रेल तथा बोबाईसी विवरण अपकेट नहीं किये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 में उक्त विवरण पंजीकृत 🖊 अपकेट करें। सदस्यों को यह सुझाव भी दिया जाता है कि वे निर्धारित फॉर्न एसएच–13 अपना नामाँकन पूर्ण करें। सदस्यगण, कंपनी की वेबसाइट https://www.sgfinserve.com/communication-to-shareholders पर संबंधित कीम्से प्राप्त कर

> एसजी फिनसर्व लिमिटेड (पूर्ववर्ती मुंगिपा सिक्योरिटीज लिमिटेड) हेत् तथा उसकी ओर हस्ता./-

> > ऋतु नागपाल कंपनी सचिव सद. सं: ए38318

प्रेसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सीआईएन नंबर: L32104DL1979PLC009590 पंजीकृत कार्यालयः डी-1081, न्यु फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली - 110025 ईमेलः cs@pel-india.in, वेबसाइटः www.pel-india.in, फोन: 120 2551556/7. फैक्स: 120 2524337

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रिसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 45वीं वार्षिव आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधन ('ओएवीएम') के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए अनुसार कारोबार करने के लिए आयोजित की जायेगी। कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 21/ 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और नवीनतम 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/ 0063 दिनांक मई 13, 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4, दिनांक 5 जनवरी, 2023 और SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167, दिनांक 7 अक्टूबर, 2023, ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, कंपनियों को आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित है। इसलिए, कंपनी की 45वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, ताकि एजीएम की सूचना में बताए गए व्यवसायों का संचालन किया जा सके। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सचना में दिए गए हैं।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की 45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति 2 सितंबर, 2024 को कंपनी के उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(टों) ('डिपॉजिटरी') के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी सूचीबद्धता विनियमन के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा कंपनी के सभी पात्र सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग सिस्टम (सामृहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए प्रदान कर रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स हरीश पोपली एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है। एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा घोषित किए जाएंगे और उन्हें कंपनी की वेबसाइट यानी www.pel-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर डाला जाएगा।

अधिनियम और नियमों के अनुसार आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं: 1. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 21 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे (भा.मा.स.) शुरू होगी और सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के

बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर, 2024 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर हासिल किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कटऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट कर सकता है। लॉगिन विवरण प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध है

3. वे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है. वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से अपना वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए कंपनी/आरटीए डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते पंजीकृत करने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है जो कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.in पर उपलब्ध है। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं। सदस्य कंपनी के ईमेल पते cs@pel-indla.in या पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर

सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक 17 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

> बोर्ड के आदेश से प्रिसिजन इलेक्टॉनिक्स लिमिटेड के लिए

> > विनीता खुराना

दिनांक: 3 सितंबर, 2024

(''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जाएगी।

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टेन्ट्स

पंजी. कार्यालय : सी-55/2, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-27377373

E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261 35वीं वार्षिक आम सभा, कट-ऑफ तिथि, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान, बुक क्लोजर, आदि की सूचना

रतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानों एवं कॉर्पोरेट कार्य मन्त्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (''कथित सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम सभा शनिवार, 28 सितम्बर, 2024 को 3.00 बजे अप. में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन विनियमनों के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक अधिकृत एजेन्सी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को नियुक्त किया है तथा यह कम्पनी रिमोर्ट ई-वोटिंग के साथ ही साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से 35वीं वार्षिक आम सभा में रखी गई व्यवसाय के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार के प्रयोग की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी रजिस्ट्रार

एवं शेयर अंतरण एजेन्ट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत है। ऐसे सदस्यों जिन्होनें कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे 35वीं एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/अथवा 35वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम द्वारा शामिल होने के लिये लॉगिन विवरणों सहित ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी info@sfcilindia.com अथवा rta@alankit.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज भेजने का कार्य 4 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया गया है।

35वीं एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 उन सभी सदस्यों को मेल की जा रही है, जिनके नाम शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सुची में प्रदर्शित हैं। कंपनी की 35वीं एजीएम की सुचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका कंपनी की वेबसाइट www.sfclindia.com पर भी उपलब्ध है और इसे वहां से एक्सेस या डाउनलोड किया जा सकता है। सदस्य कंपनी के ई-मेल आईडी info@sfclindia.com पर किसी अन्य संचार या शिकायत के लिए अपना अनरोध दर्ज कर सकते हैं या कंपनी को इसके पंजीकृत पते पर लिख सकते हैं। 35वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.sfclindia.com और मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.msei.in पर भी उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग अवधि 25 सितम्बर, 2024 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरु होगी तथा 27 सितम्बर, 2024 को 5.00

बजे अप. में बंद होगी जिसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिये रिमोट ई-वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लिंक https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, वे 35वीं एजीएम के दौरान रिमोट-ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा 35वीं एजीएम से पूर्व अपना मतदान कर दिये हों, वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 35वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन, ऐसे सदस्य फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 35वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 35वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और 35वीं एजीएम के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के जरिए वोट डालने का तरीका 35वीं एजीएम की सुचना में दिया गया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

जो सदस्य बैठक में वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन और मोबाइल नंबर बताते हुए 21 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे भा.मा.स.) से 26 सितंबर, 2024 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) के बीच info@sfclindia.com पर अनुरोध भेजकर खुद को पहले से पंजीकृत करें। केवल वे सदस्य जिन्होंने खुद को वक्ता के रूप में पहले से पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पृछने की अनुमति दी जाएगी।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ईमेल द्वारा दस्तावेजों की प्रति स्कैन करके info@,sfclindia.com या rta@alankit.com पर भेजकर 35वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और/या 35वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लागिन विवरण, ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं।

(क) अपने नाम, फोलियो नम्बर तथा सम्पूर्ण पते का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित निवेदन पत्र। (ख) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति, तथा

(ग) कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, डाइविंग लाइसेंस, चनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता

सदस्यों के मतदान का अधिकार 20 सितम्बर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2024 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। सदस्यगण info@sfclindia.com पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ ही साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदान के संचालन के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री हरविन्दर सिंह, हरविन्दर सिंह एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सिक्रेट्रीज के प्रॉप्राइटर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मतदान के परिणामों की घोषणा सभा की पूर्णता के अधिकतम 48 घंटे में किया जायेगी तथा उसकी सूचना स्टॉक एक्सचैंज को दी जायेगी तथा कम्पनी की

वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 से शनिवार, 28 सितम्बर, 2024

(दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

सुप्रनीत फाइनांस एंड कन्सल्टैन्ट्स लिमिटेड के लिये

स्थानः दिल्ली दीप्ति जैन तिथि: 2 सितम्बर, 2024 कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

दिनांक : 2 सितंबर 2024

स्थान : दिल्ली